



बैंक ऑफ इंडिया

देव पुष्ठीकरण / नूतनीकरण सूचना
जमा पुष्ठीकरण / नवीकरण सूचना

Branch : SAHAKAR NAGAR
Date : 19-01-2023
Customer ID: 189509032
Account No : 051356110008044
Deposit Type : DBD
TOTAL INTEREST : 173428
MIC/QIC INT. : 0
Nomination Regd : No
Repayable To : ANY TWO JOINTLY

DEPOSIT CONFIRMATION / RENEWAL ADV

Deposit Date	Deposit Period	Rate (%)	Deposit Amount	Maturity Date	Maturity Amount
19-01-2023	60/0	6.00	500000.00	19-01-2028	673428.00

INR Five Lakh Only

In the names of :

SARHAD SCHOOL

For Bank of India

Handwritten signature
26/01/2023

Authorised Signatories

Maturity Value is subject to change on account of payment of Tax Deducted at Source (TDS), wherever applicable.
**Penalty clause is applicable for premature withdrawal of deposit.

THANK YOU FOR YOUR CONTINUED PATRONAGE WITH OUR BANK



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन : 6668 4444

HEAD OFFICE : Star House, C-5, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Phone : 6668 4444

अटी :-

1. आपल्या ठेव नूतनीकरण संबंधीची सूचना मुदत ठेव ठेव तारखेचा कमीत कमी दोन दिवस अगोदर दयावी. अन्यथा ठेवीचे नूतनीकरण आपोआप प्रचलित व्याजदराने पूर्वीच्या मुदती एवढे केले जाई.
2. आपणास सदरची स्वयंनूतनीकरण झालेली ठेव पावती बदलायची असेल तर सदरच्या पावतीसह नूतनीकरणाची सूचना दयावी.
3. आपण जो पर्यंत 15 जी किंवा 15 एच फॉर्म बँकेकडे वेळेत देत नाहीत तो पर्यंत सदरची ठेव आयकर कपातीच्या आधीन राहील.
4. आपणास सदरच्या ठेवीवर काही कर्ज उचल हवी असल्यास आपण व्यक्तिशः सदरच्या पावतीसह शाखाधिकाऱ्यांना भेटावे.
5. संयुक्त खाते असलेली ठेव पाचती मुदतपूर्व बंद करण्यासाठी सर्व खातेदारांच्या सहवा आवश्यक आहेत.
6. मासिक आय प्रमाण पत्रांवर व्याज डिस्काउंटेड दराने दिले जाते.

शर्ते

1. कृपया यह सुनिश्चित करें कि रसीद का नवीकरण करने के बारे में आपके अनुदेश हमें परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो दिन पहले अवश्य मिला जाएँ अन्यथा रसीद का नवीकरण स्वतः हम समान अवधि के लिए परिपक्वता तारीख को प्रचलित व्याज दर पर हो जाएगा।
 2. यदि उपर्युक्त स्वतः नवीकरण को बदलना है तो कृपया इस सूचना के साथ आपके नवीन अनुदेश दें।
 3. जब तक आपके द्वारा फॉर्म 15 जी अथवा 15 एच को प्रस्तुत नहीं किया जाता यह नवीकरण रसीद स्रोत पर कर कटौती के अध्वधीन है।
 4. अगर आपको इस जमा राशि पर किसी अग्रिम की आवश्यकता है तो व्यक्तिगत रूप से इस सूचना के साथ हमसे संपर्क करें।
 5. संयुक्त खाते में परिपक्वता पूर्ण आहरण के लिए सभी जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर की आवश्यकता है।
 6. मासिक आय प्रमाणपत्र के मामले में व्याज डिस्काउंटेड दर से दिया जाता है।
- “जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक, जमा राशि बनाते वक्त सहमत जमा राशि-अवधि की समाप्ति से पहले, मीयादी जमा राशि आहरित करने की अनुमति दे सकता है। परिपक्वता से पहले किसी जमा राशि को बंद करते वक्त, जिस अवधि के लिए वह जमा राशि बैंक में रखी गई थी, उस अवधि हेतु व्याज का भुगतान, बैंक में जमा राशि रखी गई अवधि हेतु लागू व्याज दर या करारगत व्याज दर, इनमें से जो भी कम हो, किया जाएगा।”
- “इसके अलावा, समय-समय पर लागू अनुसार, बैंक पेनाल्टी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एकल व्यक्तियों से भिन्न निकायों द्वारा धारित बड़ी जमा राशियों के मामले में परिपक्वता पूर्व आहरण को नामंजूर कर सकता है और एचयूएफ के मामले में परिपक्वतापूर्व भुगतान के लिए सभी संयुक्त धारकों को मीयादी जमा रसीद पर हस्ताक्षर चाहिए।”

CONDITIONS :

1. Please let us have your renewal instruction at least two days before the maturity date, otherwise the receipt gets automatically rolled over for similar period at rates prevalent on the date of such auto renewal.
2. If the above auto-renewal needs to be changed new, please let us have your fresh instruction along with this advice.
3. The renewal receipt is subject to TDS unless you have submitted from 15G or 15H.
4. Should you require any advance against this deposit, please call on us personally, with this advice.
5. Pre-mature withdrawal in case of joint accounts, requires signature of all depositors.
6. In case of MIC, the interest is at a discounted rate.

“The Bank on request from the depositor may allow withdrawal of a Term Deposit before completion of the period of the deposit agreed upon at the time of making the deposit. While premature closing a deposit interest on the deposit for the period that is has remained with the Bank will be paid at the rate applicable to the period for which the deposit remained with the Bank or contracted rate of interest whichever is lower.”

“In addition, the Bank can levy penalty, as applicable from time to time, Further, the Bank may disallow Premature withdrawal of large deposits held in entities other than individuals and HUF., for payment before maturity, all the joint account holders have to discharge the Terms Deposit Receipt.”